

1. Handwritten text in Devanagari script



Handwritten text in Devanagari script, possibly a list or table of contents.

2. Handwritten text in Devanagari script



Handwritten text in Devanagari script, possibly a list or table of contents.

Handwritten text in Devanagari script, possibly a list or table of contents.

3. Handwritten text in Devanagari script

4. Handwritten text in Devanagari script

5. Handwritten text in Devanagari script

5000Rs.



-२-

महोदय श्री गणेशाय नमः ।
 वरदान के लिये प्रार्थना कि आप मेरे लिये सफल
 हो सकें और मेरे लिये सब कुछ हो सके ।
 आप के साथ सदा सफल होऊँ ।
 मेरे लिये सब कुछ हो सके ।
 मैं आपका बहुत बड़ा कर्तबगार हूँ ।

३-४-२३

महोदय

महोदय

5000Rs.



-3-

आज के दिन का जोर जमाना का भार भी है न
 प्रकाश के साथ का दण्ड है और ना ही किसी दुष्का
 के बाद - वास्तविकता में ही के गुण का ही है
 ना ही जोर दुष्का के कारण का कारण भारत में
 है न ही किसी सत्ता के कारण का कारण है। इन कारण

पृष्ठ ३-३

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर





को सहायता के लिये प्रार्थना करता हूँ कि

के लिये के लिये प्रार्थना करता हूँ कि

को सहायता के लिये प्रार्थना करता हूँ कि

को सहायता के लिये प्रार्थना करता हूँ कि

को सहायता के लिये प्रार्थना करता हूँ कि

को सहायता के लिये प्रार्थना करता हूँ कि

को सहायता के लिये प्रार्थना करता हूँ कि

को सहायता के लिये प्रार्थना करता हूँ कि

को सहायता के लिये प्रार्थना करता हूँ कि



5000Rs.


$$2.00 \times 10^2 \text{ g} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 0.200 \text{ kg} \quad \text{or} \quad 14.9 \text{ g} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 0.0149 \text{ kg}$$
$$100 \times \frac{1}{100} = 100 \times 1 = 100 \text{ per cent}$$
$$E_{\text{eff}} = E_0 \left(1 - \frac{\alpha}{\beta} \right) \approx E_0 \left(1 - \frac{\alpha}{\beta} \right)$$
$$\frac{1}{2}(\pi^2 - 6) \approx 1.935 \quad \text{if } G = \text{PSL}(2, 3) \text{ and } \beta = 1$$
[illegible]

Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 0°C .

5000Rs.



- 2 -

जहाँ मैं ५,००० रुपये की नॉन जूडिशियल स्टैम्प का प्रयोग कर रहा हूँ।

महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं आपकी प्रतियोगिता

में भाग ले रहा हूँ और मैं आपकी प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ।

मैं आपकी प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ।

५/५/५५

५/५/५५







१- यह नि कुरु मे एक नये प्रमाण है।

यह नि कुरु मे एक नये प्रमाण है।

यह नि कुरु मे एक नये प्रमाण है।

यह नि कुरु मे एक नये प्रमाण है।

यह नि कुरु मे एक नये प्रमाण है।

यह नि कुरु मे एक नये प्रमाण है।

यह नि कुरु मे एक नये प्रमाण है।

१- यह नि कुरु मे एक नये प्रमाण है।

१- यह नि कुरु मे एक नये प्रमाण है।

१- यह नि कुरु मे एक नये प्रमाण है।





5000Rs




महाराष्ट्र सरकार
 न्यायिक न्यायाधीश
 महाराष्ट्र न्यायाधीश
 महाराष्ट्र न्यायाधीश
 महाराष्ट्र न्यायाधीश
 महाराष्ट्र न्यायाधीश

महाराष्ट्र सरकार
 न्यायिक न्यायाधीश
 महाराष्ट्र न्यायाधीश
 महाराष्ट्र न्यायाधीश
 महाराष्ट्र न्यायाधीश



5000Rs



- 2 -

महोदय जी, मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ कि
 मैंने आपको 5000 रुपये का नॉन जूडिशियल स्टैम्प
 भेज दिया है। यह स्टैम्प आपको अपने काम के लिए
 इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यह स्टैम्प आपको
 भेजने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि मैं जानता हूँ
 कि आपको इसका बहुत उपयोग होगा। मैंने यह
 स्टैम्प आपको भेजने का फैसला इसलिए किया है
 क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको इसका बहुत
 उपयोग होगा। मैंने यह स्टैम्प आपको
 भेजने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि मैं जानता हूँ
 कि आपको इसका बहुत उपयोग होगा।

मेरा नाम

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर






$$y = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} - \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$
$$\text{STEP 2: } \bar{X} = 100, \text{ S.E.}(\bar{X}) = 10, \text{ P}(\bar{X} \leq 100) = 0.5000, \text{ P}(\bar{X} \geq 100) = 0.5000$$

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

સા.કે.સા. નં. ૧૭૭/૧૭૭૭ ને મુજબ નવું ડે. નં. ૬૫-૭૮૩ થઈ

$$= \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T \sum_{j=1}^T \sum_{k=1}^T \frac{1}{T} \mathbb{E} \left[\frac{1}{T} \right]$$
$$y = -\frac{1}{2}x + 1$$

4-2-5

5000Rs.



-११-

१- कानून व्यवस्था के लिए - कानून व्यवस्था के लिए

२- कानून व्यवस्था के लिए - कानून व्यवस्था के लिए

३- कानून व्यवस्था के लिए - कानून व्यवस्था के लिए

४- कानून व्यवस्था के लिए - कानून व्यवस्था के लिए

५- कानून व्यवस्था के लिए - कानून व्यवस्था के लिए

६- कानून व्यवस्था के लिए - कानून व्यवस्था के लिए

७- कानून व्यवस्था के लिए - कानून व्यवस्था के लिए





-८८-

के प्रतिष्ठित विद्वान् जगन्मोक्षदायक विद्यापीठ

के द्वारा विद्वान् जगन्मोक्षदायक विद्यापीठ के द्वारा

विद्वान् जगन्मोक्षदायक विद्यापीठ के द्वारा

विद्वान् जगन्मोक्षदायक विद्यापीठ के द्वारा

विद्वान् जगन्मोक्षदायक

विद्वान् जगन्मोक्षदायक



5000 Rs.



-२३-

वर्ष १९५० के अन्तर्गत के दस्तावेज के रूप में प्रमाणित

की जाति का प्रमाण के अन्तर्गत प्रमाणित किया जाता है

प्रमाणित करने के लिये प्रमाणित करने वाले के हस्ताक्षर

के अन्तर्गत प्रमाणित करने वाले के हस्ताक्षर

दिनांक १९५०

प्रमाणित करने वाले के हस्ताक्षर

प्रमाणित करने वाले के हस्ताक्षर





-10-

महाराष्ट्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी के द्वारा जारी

की जायेगी और अधिकार के अनुसार जारी की जायेगी।

यह कि इस प्रमाणपत्र के मुताबिक इस प्रमाणपत्र के द्वारा जारी किया गया

प्रमाणपत्र के द्वारा जारी किया गया है।

यह कि इस प्रमाणपत्र के द्वारा जारी किया गया है।

यह कि इस प्रमाणपत्र के द्वारा जारी किया गया है।

यह कि इस प्रमाणपत्र के द्वारा जारी किया गया है।

सं. २५

२५-१०-२५
प्रमाणपत्र







- १२ -

८- यह कि कोई व्यक्ति जो कि इस न्यायिक प्रमाणपत्र को
 प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा, उसे प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।

उत्तम।

अवधि: मार्च १९५०-५१।

प्रमाणित:-

१- निम्नलिखित प्रमाणपत्र
 जारी किया गया।

प्रमाणित।

प्रमाणित।

२- निम्नलिखित प्रमाणपत्र
 जारी किया गया।

प्रमाणित।

प्रमाणित।

यह प्रमाणपत्र जारी किया गया।

104
15

11 3/4

11 1/2

216
12-28

362

1024

364

11 APR 1964

[illegible]

59

5000Rs.



५००० रुपयांच्या ठरावीक मुदतीच्या ५००० रुपयांच्या २१/११/२००० तारखेचा
 स्थापना मुदतीचा २००० रुपयांचा

एवढ्या मुदतीच्या ठरावीक मुदतीच्या ५००० रुपयांच्या ठरावीक मुदतीच्या
 ५००० रुपयांच्या ठरावीक मुदतीच्या ५००० रुपयांच्या ठरावीक मुदतीच्या
 ५००० रुपयांच्या ठरावीक मुदतीच्या ५००० रुपयांच्या ठरावीक मुदतीच्या
 ५००० रुपयांच्या ठरावीक मुदतीच्या ५००० रुपयांच्या ठरावीक मुदतीच्या
 ५००० रुपयांच्या ठरावीक मुदतीच्या ५००० रुपयांच्या ठरावीक मुदतीच्या
 ५००० रुपयांच्या ठरावीक मुदतीच्या ५००० रुपयांच्या ठरावीक मुदतीच्या

पेज ४-२



5000Rs



-२-

का मत कि यह न्यायिक विवाद नहीं है कि यह न्यायिक है
 कि यह न्यायिक है कि यह न्यायिक है कि यह न्यायिक है
 का मत कि यह न्यायिक विवाद नहीं है कि यह न्यायिक है
 कि यह न्यायिक है कि यह न्यायिक है कि यह न्यायिक है
 कि यह न्यायिक है कि यह न्यायिक है कि यह न्यायिक है
 कि यह न्यायिक है कि यह न्यायिक है कि यह न्यायिक है
 कि यह न्यायिक है कि यह न्यायिक है कि यह न्यायिक है

पृष्ठ १०-३







$$k_{T_0} = \frac{d^2 u}{dx^2} \Big|_{x=0} = -\frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \right) = -\frac{3}{\pi}$$

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीशिवाय नमः ॥

$$L_{\text{eff}} = -\frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}(\partial_\mu \psi)^2 - \frac{1}{2}(\partial_\mu \chi)^2 - \frac{1}{2}(\partial_\mu \eta)^2 - \frac{1}{2}(\partial_\mu \sigma)^2 - \frac{1}{2}(\partial_\mu \tau)^2$$
[illegible][illegible]

संस्कृत-सहित-प्रमाणित-पत्रिका-प्रकाशक-महोदय



5000Rs.



मैंने एक मुद्रा कागज को खरीदा है जो एक न्यायाधीश के द्वारा
 के द्वारा जारी किया गया है और इसका मूल्य 5,000 रुपये है।
 (यह एक न्यायाधीश के द्वारा जारी किया गया है और इसका मूल्य 5,000 रुपये है।)
 मुद्रा कागज कागज के द्वारा जारी किया गया है और इसका मूल्य 5,000 रुपये है।
 मुद्रा कागज कागज के द्वारा जारी किया गया है और इसका मूल्य 5,000 रुपये है।
 मुद्रा कागज कागज के द्वारा जारी किया गया है और इसका मूल्य 5,000 रुपये है।
 मुद्रा कागज कागज के द्वारा जारी किया गया है और इसका मूल्य 5,000 रुपये है।

पृष्ठ 10-2



5000Rs



संस्कृत में तुम को सपना है कि तुम

केवल सपना देखना नहीं चाहते तुम

को जानते हो।

तुम को जानते हैं कि तुम को सपना है कि तुम

को जानते हैं कि तुम को सपना है कि तुम

को जानते हैं कि तुम को सपना है कि तुम

देखो



सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात्

सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात्

सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात्

सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात्

सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात्

सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात् सर्वे भद्राणि कुर्यात्

सर्वे भद्राणि कुर्यात्





-८-

किसी भी काम के लिए इस काम में करने, या
 करने के लिए, या किसी भी काम के लिए
 करने के लिए, या किसी भी काम के लिए
 करने के लिए, या किसी भी काम के लिए
 करने के लिए, या किसी भी काम के लिए
 करने के लिए, या किसी भी काम के लिए

१८-८-८८



-६-

मन्त्रालय के अधीन आने वाले विभागों के अधिकारियों को यह
 बताना है कि वे अपने विभागों में जो कार्यवाही करवाते हैं
 उसे वास्तव में ही करवाते हैं और उसे वास्तव में ही करवाते हैं
 कि वे वास्तव में ही करवाते हैं कि वे वास्तव में ही करवाते हैं

मन्त्रालय के अधीन आने वाले विभागों के अधिकारियों को यह
 बताना है कि वे अपने विभागों में जो कार्यवाही करवाते हैं
 उसे वास्तव में ही करवाते हैं कि वे वास्तव में ही करवाते हैं
 कि वे वास्तव में ही करवाते हैं कि वे वास्तव में ही करवाते हैं



पृष्ठ ६-६०





- २७ -

जहाँ है लीला, है फिर लीला लो कुंज में वन ली

जहाँ वा लक्ष्मी की मूर्ति के लिये फिर न भूलत

लोक, लीला लीला लीला लीला लीला लीला लीला लीला

लीला लीला लीला लीला लीला लीला लीला लीला लीला

लीला लीला लीला लीला लीला लीला लीला लीला लीला

लीला लीला लीला लीला लीला लीला लीला लीला लीला

100 रु.

100 रु.



100 रु.

100 रु.





कलकत्ता २०/४
 पत्र नं. १-११
 १९५२

६०२

६०६

११ APR 1954

[Handwritten signature]





1894

5000Rs.



प्रस्तावित विवरण प्रमाणित - १९४४, २०४४

उपरोक्त प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - १९४४, २०४४
प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००
प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - १९४४, २०४४

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

प्रमाणित विवरण प्रमाणित - २०००

7500

no. 402. Amount Rs. 100/-

Washington for School 15900/-

आम नि. 175-80
आम नि. 1905
को माधुचर
ने वधि 10000

102

10000

10000

10000



आम नि. 175-80
आम नि. 1905
को माधुचर
ने वधि 10000



10000

10000





સાચી જાણવાની માટે જોઈએ તેવા માહિતી આપવાની જવાબદારી
આપણે સર્વે સંભાળી લેવી જોઈશે.

આથી આપણે જોઈએ તેવા માહિતી આપવાની જવાબદારી આપણે સર્વે
સંભાળી લેવી જોઈશે.

(૨) આ માહિતી આપવાની જવાબદારી આપણે સર્વે સંભાળી લેવી જોઈશે
આથી આપણે જોઈએ તેવા માહિતી આપવાની જવાબદારી આપણે સર્વે

સંભાળી લેવી જોઈશે. આથી આપણે જોઈએ તેવા માહિતી આપવાની જવાબદારી
આપણે સર્વે સંભાળી લેવી જોઈશે.

આથી આપણે જોઈએ તેવા માહિતી આપવાની જવાબદારી આપણે સર્વે

સંભાળી લેવી જોઈશે.

આથી આપણે જોઈએ તેવા માહિતી આપવાની જવાબદારી આપણે સર્વે

Im Sam...

આથી આપણે જોઈએ તેવા માહિતી આપવાની જવાબદારી આપણે સર્વે
સંભાળી લેવી જોઈશે.

આથી આપણે જોઈએ તેવા માહિતી આપવાની જવાબદારી આપણે સર્વે
સંભાળી લેવી જોઈશે.

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1894

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851

1851



1851

[illegible]



1338 21-7-87 4209

Certified under section 42 of the Indian Stamp Act, 1899

(Rupees) Forty One thousand Six hundred

Mohinderkumar, New Delhi vide treasury challan No. 47

in favour of Mr. J. L. F. Universal Ltd.

सुरक्षा-धन, बैंक तथा सहायक सुविधा -	२,२८,१२५ रुपया ।
सहायक सहायक सुविधा	४२,०६३-०० रुपया ।

Am. Lat.

ପୃଷ୍ଠା ୩୭୭

फरवरी १९५५

1797-1800. 1801-1802. 1803-1804. 1805-1806. 1807-1808. 1809-1810. 1811-1812. 1813-1814. 1815-1816. 1817-1818. 1819-1820. 1821-1822. 1823-1824. 1825-1826. 1827-1828. 1829-1830. 1831-1832. 1833-1834. 1835-1836. 1837-1838. 1839-1840. 1841-1842. 1843-1844. 1845-1846. 1847-1848. 1849-1850. 1851-1852. 1853-1854. 1855-1856. 1857-1858. 1859-1860. 1861-1862. 1863-1864. 1865-1866. 1867-1868. 1869-1870. 1871-1872. 1873-1874. 1875-1876. 1877-1878. 1879-1880. 1881-1882. 1883-1884. 1885-1886. 1887-1888. 1889-1890. 1891-1892. 1893-1894. 1895-1896. 1897-1898. 1899-1900. 1901-1902. 1903-1904. 1905-1906. 1907-1908. 1909-1910. 1911-1912. 1913-1914. 1915-1916. 1917-1918. 1919-1920. 1921-1922. 1923-1924. 1925-1926. 1927-1928. 1929-1930. 1931-1932. 1933-1934. 1935-1936. 1937-1938. 1939-1940. 1941-1942. 1943-1944. 1945-1946. 1947-1948. 1949-1950. 1951-1952. 1953-1954. 1955-1956. 1957-1958. 1959-1960. 1961-1962. 1963-1964. 1965-1966. 1967-1968. 1969-1970. 1971-1972. 1973-1974. 1975-1976. 1977-1978. 1979-1980. 1981-1982. 1983-1984. 1985-1986. 1987-1988. 1989-1990. 1991-1992. 1993-1994. 1995-1996. 1997-1998. 1999-2000. 2001-2002. 2003-2004. 2005-2006. 2007-2008. 2009-2010. 2011-2012. 2013-2014. 2015-2016. 2017-2018. 2019-2020. 2021-2022. 2023-2024. 2025-2026. 2027-2028. 2029-2030. 2031-2032. 2033-2034. 2035-2036. 2037-2038. 2039-2040. 2041-2042. 2043-2044. 2045-2046. 2047-2048. 2049-2050. 2051-2052. 2053-2054. 2055-2056. 2057-2058. 2059-2060. 2061-2062. 2063-2064. 2065-2066. 2067-2068. 2069-2070. 2071-2072. 2073-2074. 2075-2076. 2077-2078. 2079-2080. 2081-2082. 2083-2084. 2085-2086. 2087-2088. 2089-2090. 2091-2092. 2093-2094. 2095-2096. 2097-2098. 2099-2100. 2101-2102. 2103-2104. 2105-2106. 2107-2108. 2109-2110. 2111-2112. 2113-2114. 2115-2116. 2117-2118. 2119-2120. 2121-2122. 2123-2124. 2125-2126. 2127-2128. 2129-2130. 2131-2132. 2133-2134. 2135-2136. 2137-2138. 2139-2140. 2141-2142. 2143-2144. 2145-2146. 2147-2148. 2149-2150. 2151-2152. 2153-2154. 2155-2156. 2157-2158. 2159-2160. 2161-2162. 2163-2164. 2165-2166. 2167-2168. 2169-2170. 2171-2172. 2173-2174. 2175-2176. 2177-2178. 2179-2180. 2181-2182. 2183-2184. 2185-2186. 2187-2188. 2189-2190. 2191-2192. 2193-2194. 2195-2196. 2197-2198. 2199-2200. 2201-2202. 2203-2204. 2205-2206. 2207-2208. 2209-2210. 2211-2212. 2213-2214. 2215-2216. 2217-2218. 2219-2220. 2221-2222. 2223-2224. 2225-2226. 2227-2228. 2229-2230. 2231-2232. 2233-2234. 2235-2236. 2237-2238. 2239-2240. 2241-2242. 2243-2244. 2245-2246. 2247-2248. 2249-2250. 2251-2252. 2253-2254. 2255-2256. 2257-2258. 2259-2260. 2261-2262. 2263-2264. 2265-2266. 2267-2268. 2269-2270. 2271-2272. 2273-2274. 2275-2276. 2277-2278. 2279-2280. 2281-2282. 2283-2284. 2285-2286. 2287-2288. 2289-2290. 2291-2292. 2293-2294. 2295-2296. 2297-2298. 2299-2300. 2301-2302. 2303-2304. 2305-2306. 2307-2308. 2309-2310. 2311-2312. 2313-2314. 2315-2316. 2317-2318. 2319-2320. 2321-2322. 2323-2324. 2325-2326. 2327-2328. 2329-2330. 2331-2332. 2333-2334. 2335-2336. 2337-2338. 2339-2340. 2341-2342. 2343-2344. 2345-2346. 2347-2348. 2349-2350. 2351-2352. 2353-2354. 2355-2356. 2357-2358. 2359-2360. 2361-2362. 2363-2364. 2365-2366. 2367-2368. 2369-2370. 2371-2372. 2373-2374. 2375-2376. 2377-2378. 2379-2380. 2381-2382. 2383-2384. 2385-2386. 2387-2388. 2389-2390. 2391-2392. 2393-2394. 2395-2396. 2397-2398. 2399-2400. 2401-2402. 2403-2404. 2405-2406. 2407-2408. 2409-2410. 2411-2412. 2413-2414. 2415-2416. 2417-2418. 2419-2420. 2421-2422. 2423-2424. 2425-2426. 2427-2428. 2429-2430. 2431-2432. 2433-2434. 2435-2436. 2437-2438. 2439-2440. 2441-2442. 2443-2444. 2445-2446. 2447-2448. 2449-2450. 2451-2452. 2453-2454. 2455-2456. 2457-2458. 2459-2460. 2461-2462. 2463-2464. 2465-2466. 2467-2468. 2469-2470. 2471-2472. 2473-2474. 2475-2476. 2477-2478. 2479-2480. 2481-2482. 2483-2484. 2485-2486. 2487-2488. 2489-2490. 2491-2492. 2493-2494. 2495-2496. 2497-2498. 2499-2500. 2501-2502. 2503-2504. 2505-2506. 2507-2508. 2509-2510. 2511-2512. 2513-2514. 2515-2516. 2517-2518. 2519-2520. 2521-2522. 2523-2524. 2525-2526. 2527-2528. 2529-2530. 2531-2532. 2533-2534. 2535-2536. 2537-2538. 2539-2540. 2541-2542. 25

[illegible][illegible]

Wm

2. 1. 1. 1.

(14/10/1977)
 4 lines x
 10
 10

1. 11.11.11 11.11.11 11.11.11
 2. 11.11.11 11.11.11 11.11.11
 3. 11.11.11 11.11.11 11.11.11
 4. 11.11.11 11.11.11 11.11.11
 5. 11.11.11 11.11.11 11.11.11
 6. 11.11.11 11.11.11 11.11.11
 7. 11.11.11 11.11.11 11.11.11
 8. 11.11.11 11.11.11 11.11.11
 9. 11.11.11 11.11.11 11.11.11
 10. 11.11.11 11.11.11 11.11.11

[Faint handwritten notes and signatures are visible across the page.]

Aug 1901

14/02/20

~~IN ENCL - 4~~
Annex Carfax 14/10/19

(क) यह कि सुविधि ५६६२५-०० रूपय बजटिया बैक डाफ्ट क्रिस्त नम्बर-४

गौरवा ६-१-१६८५ को वसुल पावकगी।

(ख) यह कि सुविधि ५६६२५-०० रूपय बजटिया बैक डाफ्ट क्रिस्त नम्बर-५

गौरवा ६-४-१६८५ को वसुल पावकगी।

यह कि कोई करत थापते बैक की गते रहि है लिहाजा यह बैक गप्पा
तहरीर कर दिशा कि तन्व रहे और कत जरत थाप काणे

तारी सतहरि २१-११-१६८४

मन्सुलान -

१- Kanwar Singh
Advocate

बागा - मिहिरा

२- Devi
(Mansur Khan)
%
Bachha Khan
Bhargava
Bhargava

Devi
(मिहिरा सुविधा बैक)

Amin. Gargan
For purchase

२१-११-१६८४
२१-११-१६८४



1895
15-14
367
1895



1895

[illegible]

[illegible]

993

7266

Certificate

Certified that stamp duty is exempt in this case in terms of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 and Govt. of India Finance Department (Central Revenue) Notification - Stamps, dated the 15th January, 1937 and M.P. Finance Dept. letter No. 205-37, dated the 15th February, 1937.

Chandigarh

Dated: 3-1-1937

Om Prakash Samra
 Under Secretary (A.S.)
 for Financial Commissioner & Secretary to Govt.
 of P.W.D., Revenue Department
 Under Secretary (A.S.)
 Chandigarh, Punjab

SALE DEED FOR RS. 1,30,63,127/-

THIS DEED OF SALE is made on the 24th day of January, 1936 by M/s. Paragon Real Estate & Apartments Limited, a Company with limited liabilities registered under the Companies Act, 1926 having its registered office at 21-22, Kamindra Place, Parliament Street, New Delhi through its Director Mr. M. K. Anand & Co. Late Mr. D. K. Kulkarni, S/o S. S. Kulkarni, New Delhi duly authorized in this behalf by Resolution passed by Board of Directors of the Company at a meeting held on 18/9/35, hereinafter called "the Vendor", such expression shall unless excluded by or repugnant to law or context, mean and include the said M/s. Paragon Real Estate & Apartments Limited its successors, liquidators and assigns of the One part and M/s. DLF Universal Limited, a Joint Stock Company registered under Companies Act, 1926 having its registered office at Model Town, Part II, Delhi, and one of its other offices at 21-22, Kamindra Place, Parliament Street, New Delhi (hereinafter called "the Vendor", which expression shall unless excluded by or repugnant to law or context, mean and include the said DLF Universal Limited, its successors, liquidators and assigns) on the Other Part.

WHEREAS the Vendor is the absolute owner and in possession of land measuring 69 bighas 16 kisas and 15 biswas (approx) or 34.02 acres falling in Khassra Nos. as detailed with the respective areas in Schedule 'A' attached hereto, situated in the revenue estate of village Khatimpur, District of Gurgaon.

AND WHEREAS the Vendor has entered into an agreement with the Vendor for sale of the aforesaid land along with the other lands held by the Vendor in the said revenue estate in terms of agreement entered in this behalf for land including the land detailed in the Schedule 'A'.

AND WHEREAS in pursuance of the said agreement and agreement the Vendor is entitled to get the whole or part of the land registered in its own favour or in favour of its nominee or nominees at the rate stipulated therein and at the terms and conditions stated therein.



...12/-

23/11/40
 2-2
 S.K. Prasad
 11/11/40

S.K. Prasad
 R

संपुस्त सन रजिस्ट्री
 गुडगांव

S.K. Prasad Director Company
 11/11/40

11/11/40
 2-2
 S.K. Prasad
 11/11/40

संपुस्त सन रजिस्ट्री
 गुडगांव

S.K. Prasad
 R

11/11/40

2-2
 11/11/40

Ravi K. Prasad
 11/11/40

11/11/40

AND WHEREAS the Vendor has desired and asked the Vendor to convey to it lands measuring 60 bighas, 16 biswas and 15 biswas (Bakia) or 38.02 acres, comprised of Bakia Nos. as detailed with their respective Katta areas in Schedule 'A' attached hereto, situate in the revenue estate of village Mathapur, Tahsil & District Gurgaon.

AND WHEREAS as per the terms of the arrangement and agreement the consideration for the sale of the aforesaid land came to Rs. 1,30,63,122/- (Rs. One crore thirty two lakh sixty three thousand and one hundred twenty seven only) which amount along with other accounts, the Vendor has already advanced to the Vendor.

AND WHEREAS the Vendor has also agreed to bear all the expenses of the completion and registration of the sale deed.

THE TERMS OF THE AGREEMENT ARE AS FOLLOWS:-

1. In pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of Rs. 1,30,63,122/- (Rs. One crore thirty two lakh sixty three thousand and one hundred twenty seven only) already paid by the Vendor to the Vendor, the receipt of which sum of Rs. 1,30,63,122/- (Rs. One crore thirty two lakh sixty three thousand and one hundred twenty seven only) the Vendor does hereby acknowledge, and admit the Vendor do hereby transfer and convey to the Vendor in entirety the desired land that is to say all the Vendor's right, title and interest in the said land measuring 60 bighas 16 biswas and 15 biswas (Bakia) as detailed in Schedule 'A' attached hereto, situate in village Mathapur. TO HAVE AND TO HOLD the same unto the Vendor absolutely and for ever and the Vendor does hereby transferred absolutely unto the Vendor and all his right, title and interest, property claimed and claimed whatsoever, in and about the desired land and every part thereof with appurtenances attached hereto.
2. That the Vendor covenants the Vendor that it has full right, title and interest in the said land that the said land is free from all sorts of liens, litigations, mortgages, etc. and that the Vendor has full right to sell the same, without any interruption, disturbance, claim or demand by the Vendor or any person or persons claiming through, under or in trust for the Vendor.
3. That the Vendor shall keep the Vendor sufficiently indemnified in every right against all manner of encumbrances whatsoever created, made or suffered by the Vendor.
4. That actual physical possession as owner of the desired land has been handed over to the Vendor peacefully.
5. That in case any part or whole of the desired land is taken out of the possession of the Vendor on account of any person's superior title or due to any flaw in the Vendor's title, the Vendor shall keep the Vendor indemnified in this behalf.

.....)/=

संस्कृत विद्या काशी हि हि प्रसिद्ध
विश्वविद्यालय के टी. ए. ए. ए. ए. ए.
प्रमुख के सम्मुख

संस्कृत स्व. राजेश्वर
गुहगार



6. The Vendor shall be enabled to get its name mutated and registered in place of the Vendor in all the official records as owner in possession and Vendor shall also be entitled to get its name substituted in respect of the license granted by the Director, Town & Country Planning for development of the premises under the Mysore Development & Regulation of Urban Areas Act, 1975. As the transaction is between the parent Company and one of its subsidiary Companies, no stamp duty is payable on this unless demanded as provided in Section-5 of the Indian Stamp Act, 1899.

IN WITNESS WHEREOF the said Shri S.K. Anand being the Director of the said M/s Paragon Real Estate & Apartments Limited as Vendor has put his hand at Gurugram for and on behalf of the Vendor, the day, month and year first hereinafore written.

In the presence of:

1. Raj Kumar
Anand
Gurugram
2. Krishan Kumar Goyal
93 Sh. Yadav
Vill. Kadiana
Tahsil - Gurugram

for M/s Paragon Real Estate & Apartments Ltd.


S. Anand

Anand

S. Anand

Raj Kumar
Anand
Gurugram

संयुक्त सच रजिस्ट्रार
मुद्रगाव



SCHEME 12

Particulars of land situate at village Kathapur, Tehsil & District Gurgaon (Haryana) forming subject matter of sale deed dt.

<u>Khasra No.</u>	<u>Area (Bighas)</u> <u>Bigha - Biswas - Biswas</u>	<u>Total</u>
78	1 - 9	
79	4 - 12	
80	5 - 12	
81	3 - 15	
1/15 12 - 14	0 - 16	
76	33 - 15	
102	2 - 16	
103	2 - 16	
104	1 - 8	
105	1 - 10	
101	5 - 5 - 15	
85	2 - 15	
86	3 - 16	
85	4 - 0	
69	6 - 18	
72	1 - 0	
63/84 7 - 15	7 - 16	
71	1 - 5	
70	1 - 9	
72	2 - 16	
17/18 4 - 16	4 - 11	63-16-16
		or say : 38.02 acres

for Paragon Real Estate & Apartments Ltd.,

(Signature)
(DIRECTOR)

(Signature)
B. S. Singh

7266 1 2/29
 89-46 382 3260
 14/3/88

संयुक्त सार सार
संयुक्त

[illegible][illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
इन्फॉर्मेशन के संबंध में, यह निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित जानकारी दें।													
40	149	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171
172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185
186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213
214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227
228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255
256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269
270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297
298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325
326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339
340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353
354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381
382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395
396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409
410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423
424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437
438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465
466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479
480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493
494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507
508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521
522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535
536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549
550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563
564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577
578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591
592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605
606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633
634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647
648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661
662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675
676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689
690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717
718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731
732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745
746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759
760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773
774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787
788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801
802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815
816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829
830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843
844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857
858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871
872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885
886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899
900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927
928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941
942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969
970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983
984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997
998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011
1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025
1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039
1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053
1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067
1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081
1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095
1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109
1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123
1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137
1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151
1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165
1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179
1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193
1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207
1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221
1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235
1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249
1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263
1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277
1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291
1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305
1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319
1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333
1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347
1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361
1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375
1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



45 निल संख्या
Sd K.P.
16.5.86

सूचना देवता रेखा गांधी गांधी न. सुदामा
नं. 21 17 35
101 15 26X19
5-9

101 बाई मिनाई नं. 101 5-19-0
2 5-12-7
5-6-13

Certified to be true Copy
Copying Examiner
Date 16.5.86

CP II SS
18.2.87
CD III 26
1-5.8
2.0
3-5.0
(1) First date of receipt of the material
(2) Name of the person
(3) The Name of the person
(4) The Name of the person
(5) P.P. Charge
Total Recovery

रकम

0-12-7

5-6-13

Sd K.P.
16.5.86

Instant Delivery DLF Lhr. 015878

2RS



लकल - कथे गोमा

बस्तीका जग - 7267

दितांक - 14.3.86

आलमोति - 6205817/-

स्वाम्य - 10



Dr. राजेश्वर
मुंबई
16/94



Certificate.

Certified that stamp duty is exempt in this case in terms of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 and Govt. of India, Finance Department (Central Revenue) Notification-1-Stamp, dated the 10th January, 1937 and Punjab Govt., letter No. 205-St, dated the 11th February, 1937.

Witnessed

dated 3/1/37

Om Prakash Singh
Under Secretary (A.S.)
For Financial Commissioner & Secretary to Govt.
Jy 304, Revenue Department.

The
Hon. Secy to Govt.
Revenue Department

SALE DEED FOR RS. 52,05,815/-

THIS DEED OF SALE was made on the 28th day of January, 1936 by

M/s Instant Batteries Limited a Company with limited liability registered under the Companies Act, 1934 having its registered office at G-35, Panchsheel Park, New Delhi through its Director Sh. S.K. Anand & to Sh. D.S. Mehta, & to G-35, Panchsheel Park, New Delhi duly authorised in this behalf by resolution passed by Board of Directors of the Company in its meeting held on 18-9-34 hereinafter called "the Vendor", which expression shall unless excluded by or repugnant to law or context, mean and include the said M/s Instant Batteries Limited its successors, liquidators and assigns) of the One Part and M/s DLF Universal Limited, a Joint Stock Company registered under Companies Act, 1934 having its registered office at Model Town, Faridabad, Haryana and one of its other offices at 21-22, Narindra Place, Parliament Street, New Delhi (hereinafter called "the Vendor", which expression shall unless excluded by or repugnant to law or context, mean and include the said DLF Universal Limited, its successors, liquidators and assigns) on the Other Part.

WHEREAS the Vendor is the absolute owner and in possession of land measuring 32 Bighas 14 Biswas and 13 Biswas (pukhta) or 20.46 acres falling in Muzam, is detailed with the respective areas in Schedule 'A' attached hereto, situate in the revenue estate of village Bahapur, Jaisal District Gurgaon.

AND WHEREAS the Vendor has entered into an agreement with the Vendor for sale of the aforesaid land along with the other lands held by the Vendor in the said revenue estate in terms of agreement entered in this behalf for land including the land detailed in the Schedule "A",

AND WHEREAS in pursuance of the said agreement and agreement the Vendor is entitled to get the whole or part of the land registered in its own favour or in favour of its nominee or nominee at the rate stipulated therein and at the terms and conditions stated therein.

Sd/-
3/1/37

AND WHEREAS the Vendor has declared and asked the Vendor to convey to the Vendor the land comprising 32 bighas 14 aushas and 13 biswasas (Aikata) or 20.45 acres, comprised of Aushas Nos. as detailed at their respective places in Schedule 'A' attached hereto, situate in the revenue estate of village Nathapuri, District of Darrang, Assam.

AND WHEREAS as per the terms of the agreement and agreement the consideration for the sale of the aforesaid land came to Rs. 42,05,815/- (Rs. Forty two lacs five thousand and eight hundred fifteen only) which amount including other amounts, the Vendor has already advanced to the Vendor.

AND WHEREAS the Vendor has also agreed to bear all the expenses of the completion and registration of the sale deed.

AND THIS DEED BEING AS FOLLOWS :-

1. In pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of Rs. 42,05,815/- (Rs. Forty two lacs five thousand and eight hundred fifteen only) already paid by the Vendor to the Vendor, the receipt of which sum of Rs. 42,05,815/- Rs. Forty two lacs five thousand and eight hundred fifteen only) the Vendor does hereby acknowledge, and admit the Vendor does hereby transfer and convey to the Vendor in entirety the demised land that is to say all the Vendor's right, title and interest in the said land comprising 32 bighas, 14 aushas and 13 biswasas (Aikata) as detailed in Schedule 'A' attached hereto, situate in village Nathapuri, District of Darrang, Assam to the Vendor absolutely and for ever and the Vendor does hereby transferred absolutely unto the Vendor and all its right, title and interest, property claimed and demanded whatsoever, in and about the demised land and every part thereof with appurtenances attached hereto.

That the Vendor assure the Vendor that it has full right, title and interest in the said land that the said land is free from all debts of Aikata, in Aikata, in Aikata, etc. and that the Vendor has full right to sell the land, without interruption, disturbance, claim or demand by the Vendor or any person or persons claiming through, under or in trust for the Vendor.

That the Vendor shall keep the Vendor sufficiently in demand in every right and all manner of circumstances whatsoever occurred or occasioned, made or suffered by the Vendor.

That actual physical possession of the demised land has been handed over to the Vendor absolutely.

तो की कम मूल्य

की मानियत
घोरे रजिस्ट्र
घोरे कम मूल्य
प्राप्त हुआ तो

स्वाजित किया जाता है कि धरकपत्र
आजीवन के निशान अथवा व रजिस्ट्र
आजि लायक करने तक ।



आजीवन सम रजिस्ट्रार
मुद्रांकन

5. That in case any part of whole of the deeded land is taken out of the possession of the Vendor on account of any persons' superior title or due to any flaw in the Vendor's title, the Vendor shall keep the Vendor full indemnified in this behalf.
6. The Vendor shall be entitled to get its name mutated and registered in place of the Vendor in all the official records as owner in possession and Vendor shall also be entitled to get its name substituted in respect of the licence granted by the Director, Town & Country Planning for Urban Areas Act, 1973. As the transactions between the parent Company and one of its subsidiary Companies, no stamp duty is payable on this sale deed as provided in Section 5 of the Indian Stamp Act, 1899.

IN WITNESS WHEREOF the said Sh. S.K. Agard being the Director of the said M/s Instant Batteries Limited as Vendor hereto set his hand at Gurgaon for and on behalf of the Vendor, the day, month and year first hereinafter written.

for Instant Batteries Limited,

In the presence of

1. Raj Kumar
Advocate
Gurgaon
2. Kirshan Kumar Sodai
S/o Sh. Yashwan
Vill. Kalanwas
Tehsil Gurgaon

DIRECTOR.

S. S. K. Agard

Raj Kumar
Advocate
Gurgaon

श्री रजिस्ट्रार
गुडगांव
16/14



SCHEDULE 'A'

Particulars of land situate at village Hathapur, Tehsil & District Gurgaon (Haryana) forming subject matter of sale deed dt.

<u>Khasra Nos.</u>	<u>Area (Pukhta)</u> <u>Bigha - Biswan-Biswasia</u>	<u>Total</u>
78 1 - 9 - 0		
79 4 - 10 - 6		
80 5 - 9 - 7		
81 0 - 18 - 0		
14/15 12 - 6 - 13	11 19 13	
83	3 9 0	
152	9 3 0	
153 Min	8 12 0	32-14-13

or say 120.46 acres.

For instant purposes limited.

DIRECTOR

जम्मा गुलाबिया जलपन है!

नव रजिस्ट्रार

हड़गांव

1/6/74

APPLICATION

The Income-tax Officer,

Company Circle XXI
C.B. Building,
New Delhi.



I request that a certificate be
issued below the necessary pay

and time and order of the

Whether individual, etc.

name of father (or husband)
and age of applicant in the application

3267
32-95
14/3/82
3267

any assessment has
been made under the Indian
Income-tax Act, 1961,
1957/Expenditure Tax Act,
1958, name of Income,
District in which such assess-
ment of the former years was made.

संयुक्त सच सचिव
मुद्रांक

If no assessment has been
made above, whether a return has
been filed under any of the said Acts
and if so the amount of in-
come reported for the
Circle/Ward/District where it
has been filed.

Names and addresses of all
firms or persons or body of
persons in which applicant is a partner
or a Director at any time after 1-4-58
and the Circle/Ward/District
in which each such firm or person or
body of persons is assessed or is

Names and addresses of all
companies in which applicant is
a Director at any time after 1-4-58
and the Circle/Ward/District
in which each Company is assessed or is

[illegible]

7268

77

Certificate

Certified that stamp duty is exempt in this case in terms of section 9 of the Indian Stamp Act, 1889 and Govt. of India, Finance Department (Central Revenue) Notification-1-Stamp, dated the 16th January, 1937 and Punjab Govt., letter No. 205-st, dated the 11th February, 1937.

Chandigarh
Dated 3-2-1986

Om Prakash Sangha
Under Secretary (A&J),
for Financial Commissioner & Secretary to Govt.
Haryana, Revenue Department,
Under Secretary to Govt.,
Haryana, Revenue (A&J)
Department, Haryana.

SALE DEED FOR RS. 2,09,57,347/-

THIS deed of sale is made on this 2nd day of January, 1986 by
M/s Delhi Land & Finance Limited a company with limited liabilities registered
under the Companies Act, 1956 having its registered office at 21-22, Narindra
Place, Parliament Street, New Delhi through its Director Sh. Ran Nishan Jain s/o
Late Sh. Banarai Dass s/o S-6, Model Town, Delhi duly authorised in this behalf
by Resolution passed by Board of Directors of the Company in its meeting held
on 16/9/1985, hereinafter called "the Vendor", which expression shall unless excluded
by or repugnant to law or context, mean and include the said M/s Delhi Land &
Finance Limited its successors, liquidators and assigns) of the One Part and M/s
DLF Universal Limited, a Joint Stock Company registered under Companies Act, 1956
having its registered office of Model Town, Faridabad, Haryana and one of its
other offices at 21-22, Narindra Place, Parliament Street, New Delhi (hereinafter
called "the Vendee") which expression shall unless excluded by or repugnant to
law of context, mean and include the said DLF Universal Limited, its successors,
liquidators and assigns) on the Other Part.

WHEREAS the Vendor is the absolute owner and in possession of land
measuring 172 eight 52 biswas (Pukhta) or 87.56 acres falling in Khasta Nos. as
detailed with the respective areas in Schedule 'A' attached hereto, situate in
the revenue estate of village Hathampur Tehsil and District Gurgaon.

AND WHEREAS the Vendor has entered into an agreement with the Vendee for
sale of the aforesaid land alongwith the other lands hold by the Vendor in the
said revenue estate in terms of agreement entered in this behalf for land including
the land detailed in the Schedule 'A'.

AND WHEREAS in pursuance of the said arrangement and agreement the Vendee
is entitled to get the whole or part of the land registered in its own favour or in
favour of its nominee or nominees at the rate stipulated therein and at the terms
and conditions stated therein.

R. N. Sangha

.....2/-

14/12/86 21 अक्टूबर 23 फरवरी 1907
 राजाजी महाराज जी व बंगाली राजाजी महाराज जी
 व राजाजी महाराज जी

राजाजी महाराज जी व बंगाली

12/10/1907

संयुक्त सब रजिष्ट्रार
 गुडगांव

राजाजी महाराज जी व बंगाली महाराज जी
 राजाजी महाराज जी व बंगाली महाराज जी
 राजाजी महाराज जी व बंगाली महाराज जी

राजाजी महाराज जी व बंगाली महाराज जी
 राजाजी महाराज जी व बंगाली महाराज जी
 राजाजी महाराज जी व बंगाली महाराज जी

राजाजी महाराज जी व बंगाली

11-1

संयुक्त सब रजिष्ट्रार

गुडगांव 2-
 कृष्ण कुमार महाराज

Krishan Kumar Mahara

Krishan Kumar Mahara

AND WHEREAS the Vendee has desired and asked the Vendor to convey that land admeasuring 172 bighas 57 biswas (Fakhta) or 37.64 acres, comprised of Khassra Nos. as detailed with their respective areas in Schedule 'A' attached hereto, situate in the revenue estate of village Natampur Tehsil & Distt. Gurgaon.

AND WHEREAS as per the terms of the arrangement and agreement the consideration for the sale of the aforesaid land comes to Rs. 2,09,57,327/- (Rs. Two crore nine lacs fifty seven thousand and three hundred twenty seven only) which amount alongwith other accounts, the Vendee has already advanced to the Vendor.

AND WHEREAS the Vendee has also agreed to bear all the expenses of the completion and registration of the sale deed.

NOW THIS DEED WITNESSES AS FOLLOWS :-

1. In pursuance of the said agreement and in consideration of the sum of Rs. 2,09,57,327/- (Rs. Two crore nine lacs fifty seven thousand and three hundred twenty seven only) already paid by the Vendee to the Vendor, the receipt of which sum of Rs. 2,09,57,327/- the Vendor doth hereby acknowledge, and admit the Vendor doth hereby transfer and convey to the Vendee intirety the demised land that is to say all the Vendor's right, title and interest in the said land admeasuring 172 bighas 57 biswas (Fakhta) as detailed in Schedule 'A' attached hereto, situate in Village Natampur. TO HAVE AND TO HOLD the same unto the Vendee absolutely and for ever and the Vendor doth hereby transferred absolutely unto the Vendee and all its right, title and interest, property claimed and demand whatsoever, in and about the demised land and every part whereof with appurtenances attached hereto.
2. That the Vendor assures the Vendee that it has full right, title and interest in the said land that the said land is free from all sorts of liens, litigations, injunction etc. and that the Vendor has full right to sell the same, without any interruption, disturbance, claim or demand by the Vendor or any person or persons claiming through, under or in trust for the Vendor.
3. That the Vendor shall keep the Vendee sufficiently indemnified in every right against all manner of encumbrances whatsoever created occasioned, made or suffered by the Vendor.
4. That actual physical possession as owner of the demised land has been handed over to the Vendee simultaneously.
5. That in case any part or whole of the demised land is taken out of the possession of the Vendee on account of any persons' superior title or due to any flaw in the Vendor title, the Vendor shall keep the Vendee fully indemnified in this behalf.

Nyfair,

...3/-

